

(c) The funds of the ESI Corporation have been built up keeping in view the principle of insurance that there should be adequate reserves for meeting future eventualities. The funds are, being utilised *inter-alia* for making periodical payments to the Insured Persons in contingencies of sickness, disablement and death; for paying retirement benefits to the employees of the Corporation; and for meeting expenditure on the construction/maintenance of the net work of Corporation building all over India.

रांची बिहार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

1366. श्रीमती सुमति उरांव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में रांची, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव का व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने के लिए तैयार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ; उपमन्त्री

(श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इन्सेट योजना के अन्तर्गत रांची में 10 किलोवाट का एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रेषण उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है। इस परियोजना को 1984-85 में चालू करने का कार्यक्रम है। इस

ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 70 किलोमीटर होगी और यह 4,900 गांवों में फैली 29.55 लाख ग्रामीण जनसंख्या सहित 35.9 लाख जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

#### Escalation in cost of expansion of refineries

1367. SHRI BAL KRISHNA WASHNIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there has been a steep escalation in the cost of expansion of refineries due to delay in the expansion programme;

(b) whether this delay has resulted in the import of petroleum products; and

(c) if so, what are the reasons for the expansion work being behind schedule?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c). The following refinery expansion projects are under execution:—

(i) Expansion of Bharat Petroleum Corporation refinery at Bombay from 5.25 MTPA to 6 MTPA;

(ii) Expansion of Cochin Refinery Ltd, Cochin from 3.30 MTPA to 4.50 MTPA;

(iii) Expansion of Hindustan Petroleum Corporation Refinery at Visakhapatnam from 1.50 MTPA to 4.50 MTPA; and

(iv) Expansion of Madras Refinery Ltd, Madras from 2.8 MTPA to 5.6 MTPA.

All these projects are expected to be completed by 1984-85 and all possible steps are being taken to en-